



तीन अंश, कोष्ठक के साथ संचालन का क्रम

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{3}{5}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) =$$

$$\left(3 - \frac{9}{2}\right) \div 6 =$$

$$\frac{3}{5}\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) =$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) =$$

$$\left(\frac{6}{5} + \frac{4}{5}\right) \div 2 =$$

$$\left(\frac{4}{3} - \frac{8}{5}\right) \div 4 =$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{5}\right) \times \frac{1}{6} =$$

$$\left(\frac{9}{5} + \frac{27}{2}\right) \div 9 =$$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{3}{4}\right) \times \frac{1}{5} =$$

$$\left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\right) \div 3 =$$



तीन अंश, कोष्ठक के साथ संचालन का क्रम

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{3}{5}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) = \frac{9}{50}$$

$$\left(3 - \frac{9}{2}\right) \div 6 = \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$\frac{3}{5}\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{20}$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{12}$$

$$\left(\frac{6}{5} + \frac{4}{5}\right) \div 2 = 1$$

$$\left(\frac{4}{3} - \frac{8}{5}\right) \div 4 = \left(-\frac{1}{15}\right)$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{5}\right) \times \frac{1}{6} = \frac{3}{20}$$

$$\left(\frac{9}{5} + \frac{27}{2}\right) \div 9 = \frac{17}{10} = 1\frac{7}{10}$$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{3}{4}\right) \times \frac{1}{5} = \frac{13}{60}$$

$$\left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\right) \div 3 = 1$$